

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बदायूं महोदय द्वारा थाना बिनावर का औचक निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये जाने के संबंध में ।

आज दिनांक 31-07-2022 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद बदायूं डा0 श्री ओ0पी0 सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना बिनावर का औचक निरीक्षण किया गया । निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष बिनावर अजब सिंह थानाक्षेत्र मे भ्रमणशील मिले तथा रात्रि अधिकारी उ0नि0 संजय कुमार कार्यालय पर मौजूद मिले । सीसीटीएनएस पर कम्प्यूटर ऑपरेटर फईम अहमद, थाना कार्यलेख पर कां0 947 नितिन कुमार, महिला हेल्प डेस्क पर म0कां0 786 सीमा, साइबर हेल्प डेस्क पर म0कां0 1491 सीमा व संतरी पहरा ड्यूटी पर कां0 2111 प्रिंस कल्सन मौजूद मिले । सर्वप्रथम महोदय द्वारा थाना परिसर का भ्रमण कर थाना कार्यालय, हवालात, मालग्रह, महिला हैल्प डैस्क आदि का निरीक्षण किया गया । थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया । महोदय द्वारा महिला हेल्प डेस्क को गहनता से जांचा परखा गया जिसमें आवेदिका/आने वाली पीड़िता का नाम, पता, मो0नं0 एवं समस्या का स्पष्ट उल्लेख तथा समस्या का निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही एवं समस्या के निदान का विवरण उल्लेखित करने हेतु निर्देशित किया गया एवं इसी प्रकार कम्प्यूटर में भी उल्लेख किया जाये। सीसीटीएनएस कार्यालय पर मौजूद कम्प्यूटर आपरेटर एवं कां0 क्लर्क को सतर्कतापूर्वक कार्य करने एवं रजिस्टरो के बेहतर रख-रखाव एवं साफ-सफाई हेतु निर्देशित किया गया। श्रावण मास कावड़ यात्रा के दृष्टिगत यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था एवं रूट डायवर्जन पर डियूटी में लगे पुलिस बल को चैक कर समस्त अधि0/कर्म0गण को ड्यूटी के दौरान थाना क्षेत्र में सतर्कतापूर्ण भ्रमणशील रहने तथा पुलिस की सक्रियता बनाये रखने एवं नियमित रूप से बैंक चैकिंग, एटीएम चैकिंग, मुख्य चौराहों/ मुख्य सड़क/ढाबों/ होटल/ बस स्टैंड/पेट्रोल पंप एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चैकिंग तथा रात्रि गश्त करने तथा आम जनता से अच्छा व्यवहार करने हेतु व सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को कायम रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

सोशल मीडिया सेल

जनपद बदायूं ।